

PLACE: KANPUR  
DATE : 29<sup>TH</sup> JULY, 2019

(RAJ KUMAR GUPTA)  
CS & COMPLIANCE OFFICER  
FCS-3281

RANA SUGARS LIMITED  
CIN : L15322CH1991PLC011837  
Regd. Office: SCO 49-50, Sector 8-C,  
Madhya Marg, Chandigarh-160 009

### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to clause 41 of the Listing Agreement that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 13<sup>th</sup> day of August, 2019 at Chandigarh to consider and take on record the Unaudited Financial Results (Provisional) for the quarter ended 30th June, 2019.

for RANA SUGARS LIMITED  
S/o:  
(MANMOHAN K. RAINA)  
COMPANY SECRETARY

Place : Chandigarh  
Date : 30.07.2019

**NAHAR POLY FILMS LIMITED**  
Regd. Office: 376, Industrial Area A,  
Ludhiana - 141 003  
CIN NO.: L17115PB1988PLC008820  
E-MAIL: [secncl@owmnahar.com](mailto:secncl@owmnahar.com)  
Website: [www.ownnahar.com](http://www.ownnahar.com)  
Ph: 0161-2665000, Fax: 0161-2222942

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Meeting of the Board of Directors is scheduled to be held on Tuesday, the 13<sup>th</sup> day of August, 2019 at the Registered Office of the Company, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.

The intimation is also available on the Company's website at [www.ownnahar.com](http://www.ownnahar.com) and website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nsindia.com](http://www.nsindia.com).

For Nahar Poly Films Limited  
S/o:

### Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

S.NO	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property/ (ies) (B)	Outstanding Amount ( Rs.) ( C)
1	LOAN ACCOUNT NO. HLIADMT00362914 1. VENKATESHWARA ENGINEERS & INFRASTRUCTURE 2. MAHENDRA GUPTA 3. ROHINI GUPTA	PROPERTY NO.-1- VENKATESHWARA RESIDENCY, PLOT NO. GH-01, SECTOR-6, SECHMEE-06, JAGRITI VIHAR, MEERUT-250004, UTTAR PRADESH; and  PROPERTY NO.-2- 35 RESIDENTIAL UNITS AND 6 COMMERCIAL SHOP (OUT OF WHICH NOC ISSUED FOR 3 RESIDENTIAL UNITS REMAINING 32 RESIDENTIAL UNITS AND 6 COMMERCIAL UNITS REMAIN AS SECURED ASSET) IN TOWER A, B AND G ALONGWITH CAR PARKING SPACES (ON THE GROUND FLOOR/ BASEMENT) IN THE GROUP HOUSING PROJECT KNOWN AS VENKATESHWARA RESIDENCY CONSTRUCTED ON PLOT NO.GH-01, SECTOR-6, SECHMEE-06, JAGRITI VIHAR, MEERUT-250004, UTTAR PRADESH	Rs.9,91,28,707/- (Rupees Nine Crores Ninety One Lakhs Twenty Six Thousand Seven Hundred Seven Only) as on 19.07.2018

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column C indicates the outstanding amount. Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset within the guidelines relating to assets classification issued by Regulatory Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/their liability towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column C above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.

Please note that in terms of provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."

In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, disposing of, by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of Secured Creditor.

Place: DELHI/ MEERUT/ NOIDA

For TVS Electronics Limited  
K. Santosh  
Company Secretary

For Indiabulls Commercial Credit Limited  
Authorized Officer

एस में नुमति दी होगी। लाई को अन्य तौती दी थी घोटाले थे, जो बीएस था। हालांकि इस अवधि में कंपनी ने कर्ज वितरण में 21.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की और यह 7,634.3 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 9,767.3 करोड़ रुपये रहा था। साथ ही जून तिमाही में हुआ कर्ज वितरण का 92 फीसदी खुदरा क्षेत्र में हुआ, जो डेवलपरों को उधारी पर संशय का

न्टर्क्षण और फारमासियल अंसेट्स एंड एफोर्मेंट ऑफ क्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना

गिरवी संपत्ति का विवरण (बी)	बकाया राशि (रु.) (सी)
मुनीसोपल प्रॉपर्टीज नं. 1104/4, पट्टी इन्हर, खसरा नं. 4023/1, सुखदेव नगर, पानीपत तहसील और जिला पानीपत, पानीपत-132103, हरियाणा	रु. 60,08,094/- (कपरे भांड लाख आठ हजार चौहारे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के स्रोत) और व्याज 15.07.2019 के अनुसार

वही अनुसासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम विज्ञेन्द्र व्यापार के आगे स्पष्ट सी में विनिर्दिष्ट बहरासि बकाया बनी हुई है। साथांतर चुक्के छेने के कारण उधार लेने वाले (लो) को क्रृष्ण खाते को कंपनी द्वारा सीमानिकत करना चाहा है। परियान एवरल प्रैरिक उधार लेनेवालों को अधिकार्यम की धारा 13(2)के अंतर्गत वार लेने वालों(लो) का आवाहन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन से भी में विनिर्दिष्ट संरूप बकाया देवताओं का प्राप्तान करके कंपनी के प्रति बनाए वाले अपने के स्पष्ट सी में उल्लिखित बकाया रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पाप होगी। वे के प्राप्तानों के अनुसार, "कंपनी नाविनीक नीलामी द्वारा, कोटेश्वर आमंत्रित करते हुए, विवाह के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनक तक केवल स्थिरांक क्रैडिट द्वारा एक नाविनीक संस्करण का सकाता है, इसके अन्तान दह भी ध्यान दे कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समायोजनी के कर्जदार संपत्ति का मावन करने के लिए पाप होगा है। सकाता" आप इस प्रकार विद्रो घट के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुझाई संरूपताओं द्वारा लानदार की पूर्ण विनियत सहमति के बिंदा स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है। कृति इंडियाबुल्स हाउसिंग फायानास लिमिटेड प्रायोक्त अधिकारी

गुदक बंदन सिंह दाता द्वारा एरिया, पंकजुला, हरियाणा से माजारा, वडांगद-160101 से 2/4509 र संदेश भेज सकते हैं। शब के लिए कृपया सम्पर्क मिलनी विठ्ठल, विठ्ठल एवं, वर्ली, मुंबई 400 013 .in SUB BS

विवर प्रियतर लोकों के माध्यम से विषय तथ्याएँ पैसे करने की वी से पर्याप्तिविद्यों के कारण अक्षित रिपोर्टों के आवार पर विवाही लिखों के लिए विज्ञेन्द्र लेने की अवशा की जाती है। इनके साथ विज्ञेन्द्र ! विज्ञापनों से संबंधित किसी चाहिए। वेस स्टेट्टर्स प्र० 10.00 से लिखित किसी की शीरह प्रकाशन द्वारा इस तरह का विषिद्ध एवं उत्तुरी जाएगी।

हीं

जा कर कम प्राविधिक चलत वक का मुनाफा बढ़ा।

बैंक को शुद्ध व्याज आय 3.9 फीसदी बढ़कर 3,485 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,354 करोड़ रुपये रही थी। इसकी घैर-व्याज आय 93 फीसदी बढ़कर 1,195 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 618 करोड़ रुपये रही थी। बैंक की कुल आय 8,43 फीसदी बढ़कर

2.49 फीसदी रहा था। बैंक की को बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। बैंक का इस अवधि में थोड़ा घटकर 16.5 जो पिछले साल की समान अवधि था। बैंक का शुद्ध एनपीए थोड़ा रहा, जो पिछले साल की समान रहा था।



## कंपनी परिणाम

संकेत देता है। इहली तिमाही में खुदरा वितरण 6,595 करोड़ रुपये के मुकाबले 7 फीसदी बढ़कर 7,029 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। साथ ही कॉर्पोरेट कर्ज वितरण 81 फीसदी घटकर 604 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,172 करोड़ रुपये रहा था।

इसकी शुद्ध व्याज आय 45 फीसदी बढ़कर 625.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 432.8 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.40 फीसदी की बढ़त के साथ 715.95 रुपये पर बंद हुआ।

एक्सिस बैंक का एकल शुद्ध लाभ रुपये की विवरण वितरण 3,337.70 के किया था। बैंक गुणवत्ता में भी सकल गैर लिए बैंक वाली लाभ के लिए अवधि में 3.14 फीसदी रहा, जो एक साल पहले की

रिस्कस बैंक का एकल शुद्ध लाभ अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 95.4 फीसदी के भारी उछाल के साथ 1,370.08 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

# एनहॉजर-बुश इनदेव

## ग्रॉटर्स

नई दिल्ली, 30 जुलाई

दिल्ली सरकार ने शराब बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी एनहॉजर-बुश इनदेव पर कर चोरी का आरोप लगाते हुए तीन साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए कंपनी अब नई दिल्ली में किलाहल अपने उत्पादों की विक्री नहीं कर पाएगी।

दिल्ली सरकार ने तीन साल की जांच के बाद इस महीने के आरंभ में जारी अपने एक आदेश के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। जांच के दौरान पाया गया कि विवर बनाने वाली कंपनी एसएच मिलर (एसएच ड्राग्स द्वारा 2016 में करीब 100 अरब डॉलर में अधिग्रहीत कंपनी) ने शहर में खुदरा विक्री के लिए आपूर्ति किए गए अपने

बोतलों पर नकली बारकोड का इस्तेमाल किया ताकि कर देनदारी को कम किया जा सके। एबी इनवेंट ने एक व्यापार जारी कर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कंपनी ने कहा है कि वह दिल्ली सरकार के इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। जांच रिपोर्ट में कहा गया है, 'एसएच मिलर द्वारा जाहिंग' के लिए चाहिए।



राणा शुगर्स लिमिटेड  
CIN : L15322CH1991PLC011537  
पंजी. कामालय-एसडीएच-सी.  
मायगढ़, चंडीगढ़-160099

सूचना  
सूचीबद्ध अनुबंध के खंड के अनुपालन में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदशक मंडल की बैठक 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनकृतित वित्तीय परिणामों (प्रावधानिक) पर विचार और रिकॉर्ड में लेने के लिए संगलवारा, 13 अगस्त, 2019 को चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी।

राणा शुगर्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर /—  
स्थान : चंडीगढ़ (मन्मोहन क. राधाना)  
दिनांक : 30.07.2019 कंपनी साथिया

ई

गुदक बंदन सिंह दाता द्वारा एरिया, पंकजुला, हरियाणा से माजारा, वडांगद-160101 से 2/4509 र संदेश भेज सकते हैं। शब के लिए कृपया सम्पर्क मिलनी विठ्ठल, विठ्ठल एवं, वर्ली, मुंबई 400 013 .in SUB BS

विवर प्रियतर लोकों के माध्यम से विषय तथ्याएँ पैसे करने की वी से पर्याप्तिविद्यों के कारण अक्षित रिपोर्टों के आवार पर विवाही लिखों के लिए विज्ञेन्द्र लेने की अवशा की जाती है। इनके साथ विज्ञापनों से संबंधित किसी चाहिए।

वेस स्टेट्टर्स प्र० 10.00 से लिखित किसी की शीरह प्रकाशन द्वारा इस तरह का विषिद्ध एवं उत्तुरी जाएगी।

मिलनी विठ्ठल, विठ्ठल एवं, वर्ली, मुंबई 400 013 .in SUB BS

हीं